

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 17.05.2020**

**जिला बदर हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार**

श्री अशोक राय, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के उन्मूलन के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में दिनांक: 17.05.2021 को प्रातःकाल 09.00 बजे, उप निरीक्षक श्री हसीन आजमी, चौकी कठेला, थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुखविरी सूचना के आधार पर हमराह हे.का. सुरेश वरुण व का. अर्जुन यादव के सहयोग से अभियुक्त बासदेव यादव उर्फ गुट्टे पुत्र प्यारे यादव निवासी ग्राम खैरी उर्फ झूँगहवाँ थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि बासदेव यादव उर्फ गुट्टे पुत्र प्यारे यादव निवासी ग्राम खैरी उर्फ झूँगहवाँ थाना ढेबरुआ, सिद्धार्थनगर थाना स्थानीय का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है। उपरोक्त अभियुक्त श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा वाद संख्या: 00697/2020 धारा 3(3) उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक: 12.04.2021 को जिला बदर किया गया था, परन्तु अभियुक्त ने आदेश की अवहेलना किया और अपने निवास स्थान पर आज मौजूद मिला, जिसके कारण उसे उसके निवास स्थान से नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अप. संख्या: 110/2021 धारा: 10 उ.प्र. गुंडा नियंत्रण अधिनियम का पंजीकरण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 17.05.2020**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 17-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 410 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 106 वाहनों का चालान तथा 01 वाहन को सीज कर ₹ 1,46,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 17.05.2020**

**कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

इस क्रम में आज दिनांक 17-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 300 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹0 47100/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई।

सर्वाधिक कार्यवाही भवानीगंज थाने द्वारा की गई।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगी।

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 17.05.2020

**“शांति व्यवस्था भंग करने/ व लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले 14 व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर अभियोग पंजीकृत कर बाद बनवाने रिमांड 14 दिवस न्यायिक हिरासत सिद्धार्थनगर में भेजा गया”**

प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अशोक राय के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बांसी श्री अरुण चंद्र के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.05.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बाद बनवाने रिमांड जिला जेल भेज गया ।

विवाद का कारण - डीजे चलाने की बात को लेकर विवाद

### **अभियोग का विवरण**

1.मुकदमा अपराध संख्या 111/2021 धारा 147, 148,149 ,,323, 504, 506, 452 ,336, 188, 269 ,270 आईपीसी व 03 महामारी अधिनियम 51b आपदा प्रबंधन अधिनियम व 7 C.L.A ACT

2. मुकदमा अपराध संख्या 112/2021 धारा उपरोक्त

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -**

1. हबीबुल पुत्र जुम राती
2. आसिर अली पुत्र खा लो 3.शाकिर अली पुत्र खालुक 4.सद्वाम पुत्र जुमराती
- 5.फैज मोहम्मद पुत्र कल्लू 6.नजीबुल पुत्र खालुक
- 7.शेर अली पुत्र खालुक
8. महमूद पुत्र कल्लन
- 9 असलम पुत्र खालुक सकिनान कदमहवा थाना कोतवाली जनपद सिद्धार्थनगर
- 10.श्यामलाल पुत्र शारदा 11.शक्ति पुत्र रामसूरत
- 12.गजेंद्र पुत्र शारदा
13. अमितेश पुत्रराजेन्द्र
- 14.विपत पुत्र राममिलन साकिनान कदमहवा थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरण**

1. प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह निरीक्षक
2. देवनंदन उपाध्याय 3.उपनिरीक्षक शशांक कुमार सिंह
- 4.उप निरीक्षक रवि प्रताप सिंह सेंगर
5. हेड कांस्टेबल शैलेश सिंह
6. हेड कांस्टेबल पवन मौर्य
- 7.हेड कांस्टेबल राज नारायण यादव
8. हेड कांस्टेबल बबुना यादव 9.कांस्टेबल अवनीत सिंह 10.कांस्टेबल श्यामसुंदर मौर्य 11.कांस्टेबल गणेश सिंह
- 12.कांस्टेबल अभिषेक यादव 13.कांस्टेबल अनिल यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर